

CLASS NOTES

Class: VII	Topic:
Subject: HINDI	कारक

[व्याकरण उत्तर-पुस्तिका में लिखिए]

प्र-1 कारक किसे कहते हैं ?

उ- कारक -

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध ज्ञात हो , उसे कारक कहते हैं |

उदाहरण - राम ने रावण को मारा |

प्र-2 कारक के कितने भेद होते हैं ? नाम लिखिए |

उ - कारक के भेद -

कारक के निम्नलिखित आठ भेद होते हैं -

1. कर्ता कारक
2. कर्म कारक
3. करण कारक
4. सम्प्रदान कारक
5. अपादान कारक
6. सम्बन्ध कारक
7. अधिकरण कारक
8. संबोधन कारक

प्र-3 कर्म कारक तथा सम्प्रदान कारक में क्या अंतर है ?

उ - कर्म कारक

शब्द के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है , उसे कर्म कारक कहते हैं | इसका परसर्ग

सम्प्रदान कारक

जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे बताने वाले शब्द सम्प्रदान

'को' होता है ।	कारक कहलाते हैं । इस कारक के परसर्ग को ,
उदाहरण - अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है ।	के लिए तथा हेतु होते हैं ।
	उदाहरण - जतिन मोहन के लिए उपहार लाया ।
अभ्यास कार्य -	
प्र-4 निम्नलिखित वाक्यों में करण कारक तथा अपादान कारक छाँटकर लिखिए ।	
उ -	[छात्र स्वयं करेंगे]
प्र-5 उपयुक्त कारक चिह्न लगाकर वाक्य पुनः लिखिए ।	
1-	काका कालेलकर नदियों लोकमाता कहा है ।
2-	माँ गोद तरह गंगा धारा डूबकी लगाता ।
3-	कठपुतली गुस्से उबली ।
4-	प्लेटलैटकण कमी डेंगू बीमारी होती है ।
5-	बाढ़-पीड़ितों भोजन पैकेट भिजवाए गए ।
6-	माधवदास वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी ।
उ-1-	काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है ।
2-	माँ की गोद की तरह गंगा की धारा में डूबकी लगाता ।
3-	कठपुतली गुस्से से उबली ।
4-	प्लेटलैटकण की कमी से डेंगू की बीमारी होती है ।
5-	बाढ़-पीड़ितों को भोजन के पैकेट भिजवाए गए ।
6-	माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी ।
प्र-6 निम्नलिखित कारक-चिह्नों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए -	
उ- में -	में सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ ।
पर -	पेड़ पर चिड़िया बैठी है ।
अरे -	अरे ! माँ आप कब आईं ?
से (तुलना)-	रमा शीतल से सुंदर है ।
को (सम्प्रदान)-	माँ ने सबको भोजन कराया ।
ने -	गरिमा ने मधुर गीत गाया ।

प्र-7 निम्नलिखित रिक्त-स्थानों में उचित कारक-चिह्न भरिए -

उ-1 तोत्तोचान ने उसे आमंत्रित किया था ।

2 इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं ।

3 उसे बुआजी ने यह सूचना दी थी ।

4 धीरे-धीरे मोर के दोनों बच्चे बढने लगे ।

5 कक्षा में भूचाल आ गया ।

6 अपने-अपने मौसम की अपनी-अपनी बातें होती हैं ।

(Content absolutely developed from home)